

प्रेस- नोट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 14.07.2022

लूट की मोटरसाईकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 29.06.2022 को थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह मय हमराह 30नि0 अभिषेक कुमार राय मय का0 हिमांशु सिंह व का0 दिनेश शाह तलाश वांछित में मामूर था कि जरिये मुखबीर खास सूचना पर मु0अ0सं0 157/2022 धारा 394 भादवि से सम्बन्धित छीने गयी मोटरसाईकिल नं0 UP53DX0262 सुपर स्पेलेण्डर पर दो व्यक्ति सवार होकर डेहरा टिकर तिराहे से सिकरीगंज की तरफ आ रहे है, मुखबिर की इस सूचना पर सिकरीगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सुरज पुत्र फूलचन्द निवासी कटघरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को आज दिनांक 14.07.2022 समय करीब 00.15 AM पर भूमिधर तिराहे से अंतर्गत धारा 394,411 भादवि में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नं0 UP53DX0262 सुपर स्पेलेण्डर काले रंग का है बरामद किया गया।

अभियुक्त से पूछताछ/अपराध विवरण- अभियुक्तगण से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि दिनांक 12.07.2022 की रात्रि करीब 12 बजे रात बनकट मोड़ के पास गिरफ्तार सुरज व अपने एक साथी धर्मवीर पुत्र भालचन्द निवासी रधौली थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर तथा उसका एक साथी जिसका नाम पता मुझे मालूम नहीं है, के साथ एक व्यक्ति के सिर पर डण्डे से मारे जिससे वह गिर गया तथा इन लोगो ने उसकी मोटरसाईकिल छीन कर भाग गये थे कि आज दिनांक 14.07.2022 को उसी मोटरसाईकिल से अभियुक्त व उसका साथी धर्मवीर किसी अन्य घटना को कारित करने के लिये निकले थे और पकड़े गये। पीछे बैठे व्यक्ति के बॉरों में पूछा गया तो उसका नाम धर्मवीर पुत्र भालचन्द्र निवासी रधौली थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर जो अंधेरे का फायदा उठा कर भाग निकला।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

सुरज पुत्र फूलचन्द निवासी कटघरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

भूमिधर तिराहा दिनांक 14.07.2022 समय 00.15 AM

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0- 157/2022 धारा 394,411 IPC थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

बरामदगी -

मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नं0 नं0 UP53DX0262 सुपर स्पेलेण्डर काले रंग का

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

01-थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह- थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

02-30नि0 श्री अभिषेक कुमार राय - थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

03-का0 हिमांशु सिंह - थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

04-का0 दिनेश शाह - थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर